



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, नवम्बर 27—दिसम्बर 3, 2005, शनिवार/अग्रहायण 6—अग्रहायण 12, 1927  
No. 49] NEW DELHI, NOVEMBER 27—DECEMBER 3, 2005, SATURDAY/AGRAHAYANA 6—AGRAHAYANA 12, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)  
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

(विधि साहित्य प्रकाशन)

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2005

सा. का. नि. 407.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन (समूह ख पद) भर्ती नियम, 1982 और विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1998 को, जहां तक उनका संबंध आशुलिपिक (हिन्दी) और कारबार कार्मिक से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विधि साहित्य प्रकाशन, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में समूह 'ख' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता :— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. सहायक प्रबंधक	1*(2005) 1*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	6500-200-10500 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।		
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा				
11					12
संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति और प्रोन्नति)	1. संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति और आमेलन) केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :				

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिसने मूल काडर या विभाग में 5500-9000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और
- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखते हैं, अर्थात् :—
- (i) वैकल्पिक या अनिवार्य हिन्दी विषय के रूप में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समतुल्य;
- (ii) किसी प्रकाशन घर या प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग विभाग में तीन वर्ष का अनुभव।
2. ऐसे विभागीय कारबार कार्मिक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, बाह्य व्यक्तियों के साथ उन पर भी विचार किया जाएगा, और यदि वे चयनित हो जाते हैं तो पद प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ समझा जाएगा।

**टिप्पण 1**—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2**—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3**—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

लागू नहीं होता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
2. उप सम्पादक	*11(2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	6500-200 10500 रुपए	लागू नहीं होता	नहीं

7	8	9	10
<p>30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p><b>आवश्यक :—</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री या समतुल्य;</p> <p>(ii) स्नातक डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो;</p> <p>(iii)(क) अधिवक्ता के रूप में तीन वर्ष तक व्यवसाय किया हो; या</p> <p>(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में विलेखों, विधेयकों, नियमों, विनियमों या आदेशों आदि का हिन्दी में अनुवाद कार्य में तीन वर्ष का अनुभव; या</p> <p>(ग) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णयों का हिन्दी में सम्पादन और अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।</p> <p><b>टिप्पण 1—</b>अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2—</b>अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p> <p><b>वांछनीय :—</b>किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर डिग्री।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष</p>

11	12
<p>(i) पचास प्रतिशत।</p> <p>प्रोन्नति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा;</p> <p>और</p> <p>(ii) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन</b></p> <p>केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी,—</p> <p>(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिसने मूल काडर या विभाग में 5500-9000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p> <p><b>टिप्पण 1—</b>पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं</p>

12

होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2**—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3**—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि पर विचार करने के लिए ) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

- |  |          |
|--|----------|
| (1) अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव, विधि साहित्य प्रकाशक का भारसाधक | —अध्यक्ष |
| (2) सम्पादक  | —सदस्य   |
| (3) उप सचिव या अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन)                     | —सदस्य   |

1	2	3	4	5	6
3. अधीक्षक (मुद्रण)	1 *(2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	6500-200 10500 रुपए	चयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष		
11	12				

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

**प्रोन्नति :** ऐसा मुद्रण सहायक जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो।  
**टिप्पण :**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

3342 01/05-2

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :

- (क)(1) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या  
(2) जिसने मूल काडर या विभाग में 5500-9000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और  
(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

- (1) स्नातक डिग्री स्तर पर हिन्दी वैकल्पिक या अनिवार्य विषय के रूप में हो ; और  
(2) अधिनियमों, विधेयकों, नियमों, विनियमों या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के साथ निर्णयों का तीन वर्ष का अनुभव और प्रूफ रीडिंग का ज्ञान।  
(ग) के निर्णयों का हिंदी में एडिटिंग और अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13			14		
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि पर विचार करने के लिए ) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—			किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।		
(1) अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव, विधि साहित्य प्रकाशक का भारसाधक	—अध्यक्ष				
(2) सम्पादक	—सदस्य				
(3) उप-सचिव या अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन)	—सदस्य				
1	2	3	4	5	6
लेखाकार	1* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचित	5500-175- 9000 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

## प्रतिनियुक्ति/आमेलन

## प्रतिनियुक्ति/आमेलन :

- (अ)(क)(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे सहायक जो नियमित आधार पर पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर 'आठ वर्ष' सेवा की है; और
- (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य या समतुल्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों; जिसके न हो सकने पर

## प्रतिनियुक्ति

- (आ) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :
- (क)(1) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (2) जिसने मूल काडर या विभाग में 5000-8000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या
- (3) जिसने मूल काडर या विभाग में 4500-7000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है;
- (4) जिसने मूल काडर या विभाग में 4000-6000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है;
- (ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य या समतुल्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों; जिसके न हो सकने पर
- (ग) अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा या केन्द्रीय सरकार के किसी लेखा विभाग द्वारा आयोजित समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पण 1—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

लागू नहीं होता

किसी अधिकारी को आमेलन द्वारा नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
5. आशुलिपिक 15*(2005) (हिन्दी)	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5500-175-9000 रुपए	लागू नहीं होता	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के

लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

8	9	10
आवश्यक :	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मेट्रीकुलेशन-या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो; और		
(ii) हिन्दी आभुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।		
टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।		
टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब संयने के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राह है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		
वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर डिग्री।		
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री स्तर पर हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो;		
(ii) कम्प्यूटर चालन का ज्ञान।		

11	12
प्रतिनियुक्ति द्वारा/आमेलन न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा:
	केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :
	(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या
	(ii) जिसने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपए के या समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ; और
	(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।
	टिप्पण 1—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	टिप्पण 2—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।



13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- |  |          |
|--|----------|
| (1) अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव, विधि साहित्य प्रकाशन का भारसाधक | —अध्यक्ष |
| (2) सम्पादक  | —सदस्य   |
| (3) उप सचिव या अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन)                     | —सदस्य   |

किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
6. कारबार	1*(2005)	साधारण केन्द्रीय	5500-175-	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
कार्यपालक	*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	9000 रुपए			

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

11	12
प्रोन्नति द्वारा	<p><b>प्रोन्नति :</b></p> <p>5000-8000 रुपए के वेतनमान में ऐसा सहायक (साधारण) जिसने उस श्रेणी में नियमित आधार पर तीन वर्ष सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>

13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- |  |          |
|--|----------|
| (1) अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव, विधि साहित्य प्रकाशन का भारसाधक | —अध्यक्ष |
| (2) सम्पादक  | —सदस्य   |
| (3) उप सचिव या अवर सचिव (विधि साहित्य प्रकाशन)                     | —सदस्य   |

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

3342 GI/05-3

[सं. ए.-12018/2/98-बीएसपी(ए)]

एम. दास, उप सचिव

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

(Vidhi Sahitya Prakashan)

New Delhi, the 28th November, 2005

**G.S.R. 407.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan (Group B posts) Recruitment Rules, 1982; and the Ministry of Law, Justice & Company Affairs, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1998, in so far as they relate to the posts of Stenographer (Hindi) and Business Executive Except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to Group 'B' posts in the Vidhi Sahitya Prakashan, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, namely :—

**1. Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan, Group 'B' posts Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application :—**These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of Posts, Classification and Scale of Pay :—**The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

**4. Method of Recruitment, Age Limit, Qualifications, etc. :—**The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage, with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Assistant Manager	1*(2005) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500-200 10500	Not applicable
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made

11

Composite method (deputation plus promotion)

12

1. Composite method (deputation plus promotion) :

Officers of the Central Government or State Government or Union Territories :

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with three years service in post in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :—

(i) Bachelor's Degree from a recognised University or equivalent with Hindi as an elective or compulsory subject;

(ii) Three years experience in a publishing house or Printing Press or Printing Department.

2. The departmental Business Executive possessing three years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he selected, the post shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1.—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.—The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3.—The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

13

Not applicable

14

Consultation with the Union Public Service Commission is necessary

1

2

3

4

5

2. Sub-Editor.

7\*(2005)  
\*Subject to variation dependent on work load.

General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.

Rs. 6500-200 10500.

Not applicable

6	7	8	9	10
No.	Not exceeding 30 years. (Relaxable up to five years for Government servants in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.)  <b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receiving applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District of Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep.)	<b>Essential :</b> (i) Bachelor's Degree in Law of a recognised University or equivalent (ii) Hindi as an elective or compulsory subject at the Bachelor's Degree levels; (iii) should have :— (a) practised as an Advocate for a period of three years; or (b) experience of translation in Hindi of deeds, agreements, Bills, rules, regulations or Orders, etc. in the Central Government or a State Government or a Union Territory for a period of three years; or (c) experience of editing and translation in Hindi of Supreme Court or High Court judgments for a period of three years.  <b>Note 1.</b> Qualification (s) are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.  <b>Note 2.</b> The qualification regarding experience is (are) relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.  <b>Desirable :</b> Master Degree in Law (LL.M.) from a recognised University	Not applicable	Two years for direct recruits.

11	12
(i) Fifty per cent by deputation/absorption failing which by direct recruitment; and (ii) Fifty per cent by direct recruitment	Deputation/absorption : Officers of the Central Government or State Government.— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three 'years' service in the grade after appointment thereto on a regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.  <b>Note 1.</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2.** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3.** The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central/State/Union Territory Govt. shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

13		14
<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—</b>		Consultation with the Union Public Service Commission necessary for appointment to the post on each occasion.
1. Additional Secretary or Joint Secretary, in charge of Vidhi Sahitya Prakashan	— Chairman	
2. Editor	— Member	
3. Deputy Secretary or Under Secretary (Vidhi Sahitya Prakashan)	— Member	

1	2	3	4	5
3. Superintendent (Printing)	1*(2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500-200 10500	Selection

6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

11	12
Promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion :</b> Printing Assistant with six years' regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation :</b> Officers under the Central Government or State Government or Union territories,—</p> <p>(a) (i) holding the analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or department; and</p>

12

(b) possessing the following educational qualifications and experience :—

- (i) Bachelor's Degree of a recognised University or equivalent with Hindi as an elective or compulsory subject; and
- (ii) three years' experience in a department dealing with printing of Acts, Bills, rules, regulations, or judgements of Supreme Court or High Courts and knowledge of proof reading.

**Note 1.** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2.** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3.** The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

13			14	
<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :—</b>			Consultation with the Union Public Service Commission necessary while appointing and officer on deputation.	
1. Additional Secretary or Joint Secretary, in charge of Vidhi Sahitya Prakashan	— Chairman			
2. Editor	— Member			
3. Deputy Secretary or Under Secretary (Vidhi Sahitya Prakashan)	— Member			
1	2	3	4	5
4. Accountant	1*(2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5500-175-9000	Not applicable
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
11		12		
Deputation/absorption		Deputation/absorption :		
		(A) (a) (i) Assistants of the Central Secretariat Service holding the post on regular basis, or		
		(ii) Upper Division Clerk of Central Secretariat Clerical Service with eight years' regular service in the grade ; and		
		(b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent and possess three years' experience of cash, accounts and budget work; failing which—		
		(B) Officers of the Central Government ;		
		(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ;		
		or		

12

- (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 4500—7000 or equivalent in the parent cadre or department;
- (iv) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 4000—6000 or equivalent in the parent cadre or department;
- (b) who have undergone training in cash and accounts work in the Institute of Secretariate Training and Management or equivalent or possess three years experience of cash, accounts and budget work; or
- (c) have passed the Subordinate Accounts Service examination or equivalent examination from an Organised Accounts Department of the Central Government.

**Note 1.** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post\* held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 2.** The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

13

Not applicable

14

Consultation with the Union Public Service Commission necessary when an officer is in the field of consideration for appointment on absorption basis.

1	2	3	4	5
5. Stenographer (Hindi)	15*(2005) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5500-175 9000	Not applicable

  

6	7	8	9	10
No.	30 years. (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). <b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District of Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and	<b>Essential :</b> (i) Passed the Matriculation or equivalent Examination from a recognised Board or University or equivalent; and (ii) Possessing a speed of 100 words per minute in Hindi Stenography. <b>Note 1.</b> Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. <b>Note 2.</b> The qualifications regarding experience is (are) relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service	Not applicable.	Two years

7		8		
Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).		Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
<b>Note 2.</b> —The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.		<b>Desirable :</b> (i) Bachelor's Degree with Hindi as an elective/compulsory subject from a recognised University or equivalent; and (ii) knowledge of computer operation.		
11		12		
By deputation/absorption failing which by direct recruitment.		By deputation/absorption :  Officers under the Central Government or State Government or Union territories,— (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post in the scale of pay of Rs. 5000—8000 or equivalent the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.  <b>Note 1.</b> —The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.  <b>Note 2.</b> —The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
13		14		
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :— (1) Additional Secretary or Joint Secretary, in charge of Vidhi Sahitya Prakashan —Chairman (2) Editor —Member (3) Deputy Secretary or Under Secretary (Vidhi Sahitya Prakashan) —Member.		Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation/absorption.		
1	2	3	4	5
6. Business Executive.	1* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5500-175 9000.	Selection
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees.



11

12

**Promotion****Promotion :**

Assistant (General) in the pay scale of Rs. 5000—8000 with three years regular service in the grade.

**Note :**—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

13

14

Departmental Promotion Committee for considering promotion :—

Consultation with Union Public Service Commission not necessary

- (1) Additional Secretary or Joint Secretary,  
Incharge of Vidhi Sahitya Prakashan —Chairman
- (2) Editor —Member
- (3) Deputy Secretary or Under Secretary  
(Vidhi Sahitya Prakashan) —Member.

[No. A-12018/2/98-VSP(A)]

M. DAS, Dy. Secy.

**गृह मंत्रालय**

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2005

**सा. का. नि. 408**— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल में पशु चिकित्सा काडर, समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल योद्यक परा पशु चिकित्सा काडर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना:**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होगा।

**3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

**5. निरर्हता:**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. अधिवर्षिता:**— इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त होने के मास की अंतिम दिन को अपराह्न में सेवा से निवृत्त होगा।

परन्तु, कोई व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी माह की पहली तारीख है वह 57 वर्ष की आयु प्राप्त होने के माह के पूर्ववर्ती माह की आखिरी तारीख को अपराह्न में सेवा से निवृत्त होगा।

3342 GI/05-5

7. **शिथिल करने की शक्ति:**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति:**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

9. **सेवा का दायित्व:**— इन नियमों के अधीन किसी उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में किसी भी जगह सभी के लिए सेवा के दायित्व के अधीन होगा।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. सहायक उपनिरीक्षक (पशु चिकित्सा)	6* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	4000-100 6000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा				
11	12				
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन/पुनः नियोजन द्वारा।	प्रोन्नति :— (क) ऐसे हेड कांस्टेबल (पशु चिकित्सा) जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी मान्यताप्राप्त संस्था से स्टाक सहायक का छह मास का पाठ्यक्रम किया हो।  टिप्पण. — जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।				

**प्रतिनियुक्त/आमेलन :**

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी,

(क) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हैं और किसी मान्यताप्राप्त संस्था से स्टाक सहायक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो,

या

(ख) ऐसे हेड कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) जिन्होंने श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो के साथ किसी मान्यताप्राप्त संस्था से छह मास का स्टाक सहायक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो,

या

(ग) रु. 3200-85-4900 वेतनमान में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से छह माह का स्टाक सहायक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

**भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन :**

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या आमेलन पर विचार के लिए) में निम्नलिखित होंगे :

लागू नहीं होता

- |  |          |
|--|----------|
| 1. उपमहानिदेशक   | —अध्यक्ष |
| 2. कमांडेंट या क्षेत्र संयोजक  | —सदस्य   |
| 3. मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) या मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी | —सदस्य   |

1	2	3	4	5	6
2. हेड कांस्टेबल (पशुचिकित्सा)	46* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	3200-85-4900 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता।

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11	12		
<p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन/पुनः नियोजन द्वारा।</p>	<p><b>प्रोन्नति :</b> कांस्टेबल (पशु चिकित्सा) जिन्होंने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से छह मास का स्टॉक सहायक का पाठ्यक्रम किया हो।</p> <p><b>टिप्पण</b>—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे प्थेष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :</b> केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी, (क) जो नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों और किसी मान्यताप्राप्त संस्था से छह मास का स्टॉक सहायक पाठ्यक्रम पूरा किया हो, या ऐसे हेड कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) या लांस नायक (साधारण ड्यूटी) या कांस्टेबल (साधारण ड्यूटी) जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से छह मास का स्टॉक सहायक का पाठ्यक्रम पूरा किया हो; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन पास हो। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p> <p><b>भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन :</b> सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>		
13	14		
<p><b>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>कमांडेंट —अध्यक्ष</li> <li>उप कमांडेंट —सदस्य</li> <li>सहायक कमांडेंट —सदस्य</li> <li>दरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी/पशुचिकित्सा अधिकारी —सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता।		

1	2	3	4	5	6
3. कांस्टेबल (पशुचिकित्सा)	33* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक)	3050-75- 3950- 4590- 16,500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

7	8	9	10
18-23 वर्ष के बीच आयु-सीमा अव- धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बाबत 45 वर्ष तक) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	<b>आवश्यक :</b> किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मुख्य विषय के रूप में जीव विज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन पास। (2) शारीरिक और चिकित्सीय मानक (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) अभ्यर्थी निम्नलिखित उपेक्षाओं को पूरा करेंगे :— <b>शारीरिक मानक :</b> (क) ऊंचाई : 170 सें.मी. <b>शिथिलनीय.</b> —(i) गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोंगरा, मराठा, सिक्किम, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 5 सें.मी. तक (ii) जनजाति/आदिवासी, जिसके अंतर्गत मिजो और नागा भी हैं को 7.5 सें.मी. (ख) सीना : साधारण जनजाति/आदिवासी बिना फुलाए 80 सें.मी. 77 से.मी., फुलाए 85 से.मी. 82 सें.मी. <b>चिकित्सीय परीक्षण :</b> (क) नेत्र दृष्टि (बिना संशोधन के) <b>दूर दृष्टि :</b> अच्छी आंख 6/6 या 6/9 खराब आंख 6/12 या 6/9 <b>निकट दृष्टि</b> अच्छी आंख जे आई खराब आंख जे आई आई (ख) भार-ऊंचाई के अनुरूप (ग) अभ्यर्थियों को अंतर्जानु, सपाट पैर, स्फीत शिरा या तिर्यक आंखों वाला और उच्चरंग दृष्टि का नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों का इशाहरा के परीक्षण साथ ही एडरिच-ग्रीन लेनर्टन परीक्षण द्वारा रंग दृष्टि के लिए परीक्षण किया जाएगा। उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य का होना चाहिए और उन्हें किसी भी शारीरिक विकृति का नहीं होना चाहिए जिससे कर्तव्यों के पक्षपालन में व्यवधान उत्पन्न हो। (3) पदधारक की नियुक्ति के पश्चात् उसे आधिकारिक भर्ती पाठ्यक्रम पास करना होगा और किसी मान्यता- प्राप्त संस्था या संगठन से एक वर्ष की अवधि के	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भीतर किसी मान्यताप्राप्त संस्था या संगठन से स्टाक सहायक पाठ्यक्रम पास करना होगा जिसमें असफल होने पर वह सेवा समाप्ति के लिए दायी होगा।

**वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा में विभिन्न पदों के पशुओं की चिकित्सा में एक वर्ष का अनुभव।

11	12
प्रोन्नति, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन/पुनः नियोजन द्वारा।	<p><b>आमेलन :</b> कांस्टेबल [ साधारण ड्यूटी या फील्ड सहायक (सहायक) ] जो स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और शारीरिक माप रखते हों और सशस्त्र सीमा बल का आधारित भर्ती पाठ्यक्रम तथा किसी मान्यताप्राप्त संस्था से छह मास का स्टाक सहायक का पाठ्यक्रम किया हो।</p> <p><b>भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्नियोजन :</b> सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>
13	14
लागू नहीं होता	<p>विभागीय भर्ती बोर्ड।</p> <p>[ फा. सं. 4/3/एसएसबी/बीएन/03/एस.एफ.एस. ]</p> <p>मनोज अग्रवाल, निदेशक (पर्स)</p>

#### • MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th November, 2005

**G.S.R. 408.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' Combatised Para-Veterinary Cadre posts in the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal Combatised Para-Veterinary Cadre, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,—

- Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; or
- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

7. **Superannuation.**—A person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty-seven years :

Provided that a person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of fifty-seven years.

8. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the scheduled castes, the scheduled tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

10. **Liability of service.**—Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Assistant Sub-Inspector (Veterinary)	6* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 4000-100-6000.	Non-selection	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption/re-employment grades from which promotion/deputation/absorption/re-employment is to be made			
11		12			
By promotion failing which by deputation/absorption/re-employment.		<b>Promotion :</b> Head Constable (Veterinary) with five years regular service in the Grade and having undergone six months Stock Assistant Course from a recognised Institution. <b>Note—</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. <b>Deputation/absorption :</b> Officers of the Central Government or State Government,			

3342 GI/C5-7

12

- (a) holding analogous post on regular basis and having successfully undergone six months Stock Assistant Course from a recognised Institution, Or
- (b) Head Constable (General Duty) with five years regular service in the Grade who having successfully undergone six months Stock Assistant Course from a recognised Institution, Or
- (c) with five years regular service in the pay scale of Rs. 3200-85-4900 and having successfully undergone six months Stock Assistant Course from a recognised Institution.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation including short-term contract shall not be exceeding 52 years as on the closing date or receipt of application).

**Re-employment for ex-servicemen :** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to service within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

If a Departmental Promotional Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

**Group 'C' Departmental Promotional Committee (for considering promotion or absorption) consisting of :—**

Not applicable.

1. Deputy Inspector General —Chairman
2. Commandant or Area Organiser —Member
3. Chief Veterinary Officer (Selection Grade) or Chief Veterinary Officer —Member

1	2	3	4	5	6
2. Head Constable (Veterinary)	46* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 3200-85-4900	Non-selection	Not applicable
7	8		9	10	
Not applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	

11

12

By promotion failing which by deputation/absorption/re-employment.

**Promotion :** Constable (Veterinary) with three years regular service in the grade and having successfully undergone six months Stock Assistant Course from a recognised Institution.

**Note—**Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.



**Deputation/absorption :**

Officers of the Central Government or State Government,

(a) holding analogous post on regular basis and having successfully undergone six months Stock Assistant Course from a recognised Institution, Or

(b) Head Constable (General Duty) or Lance Naik (General Duty) or Constable (General Duty) with three years regular service; and

(i) having successfully undergone six months Stock Assistant Course from a recognised Institution; and

(ii) Passed Matriculation Examination from a recognised Board or University.

(The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation including short term contract shall not be exceeding 52 years as on the closing date of receipt of application).

**Re-employment for ex-servicemen :** The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to service within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

13

14

**Group 'C' Departmental Promotional Committee**  
(for considering promotion or absorption) consisting of :—

Not applicable.

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Commandant                                   | —Chairman        |
| 2. Deputy Commandant                            | —Member          |
| 3. Assistant Commandant                         | —Member          |
| 4. Senior Veterinary Officer/Veterinary Officer | —Co-opted Member |

1

2

3

4

5

6

3. Constable (Veterinary)	33* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-4590	Not-applicable	Not applicable
---------------------------	---	--	-----------------------	----------------	----------------

7

8

9

10

Between 18—23 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.

Note 1— The crucial date for determining the age limit shall be

**Essential :**

(1) Matriculation Examination pass with Biology as main subject from a recognised Board/University.

(2) Physical and Medical Standards: (Male Candidates only)

The candidates shall meet the following requirement :—

**Physical standard :**

(a) Height : 170 cms.

Relaxable :—(i) by 5 cms to the candidates belonging to hill areas of Garhwal, Kumaon,

Not applicable

Two years.

7	8
<p>the closing date for receipt of duplication from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island and Union Territory of Lakshadweep).</p> <p><b>Note 2 :</b> The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p>Himachal Pradesh, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimis, Leh and Ladakh, Kashmir Valley and North East.</p> <p>(ii) by 7.5 cms to Tribals or Adivasis including Mizos and Nagas.</p> <p>(b) Chest :</p> <p>General Tribal/Adivasis</p> <p>Unexpanded      80 cm   77 cm</p> <p>Expanded        85 cm   82 cm</p> <p><b>Medical Standard :</b></p> <p>(a) Eye Sight (without correction)</p> <p>Distant vision   Near Vision</p> <p>Better   Worse   Better   Worse</p> <p>Eye   Eye   Eye   Eye</p> <p>6/6   6/12   II   III</p> <p>Or</p> <p>6/9   6/9</p> <p>(b) Weight :</p> <p>Corresponding to height</p> <p>(c) The candidates must not have know knee, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and they should possess high colour vision. The candidates will be tested for colour vision by Ishahara's Test as well as Edrich-Green Lantern Test. They must be in good mental and bodily health and free from any Physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p>(3) After appointment the holder of the post shall have to pass Basic Recruits Course and Stock Assistant Course from a recognised Institution or organisation within a period of one year failing which his services shall be liable to be terminated.</p> <p><b>Desirable :</b></p> <p>One year experience in treatment of different species of animals, in a recognised Veterinary Hospital.</p>
11	12
<p>Direct recruitment failing which by absorption/re-employment.</p>	<p><b>Absorption :</b> Absorption of Constable (General Duty) or Field Assistant (General) who possess the educational qualifications and physical standard as prescribed for direct recruits under column 8 and have undergone Basic Recruits Course of Sashastra Seema Bal and six months Stock Assistant Course from a recognised Institution.</p> <p><b>Re-employment for ex-servicemen :</b></p> <p>The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the experience and qualifications prescribed under column 8 shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.</p>
13	14
<p>Not applicable</p>	<p>Department recruitment board.</p>

[F. No. 4/3/SSB/Bn/03/SFS]

MANOJ AGGARWAL, Director (Per).